

CLASS - 6

SUBJECT- 2ND LANGUAGE HINDI

CHAPTER-1

आ रही रवि की सवारी कविता

. सार :-

. 'आ रही रवि की सवारी' कविता के कवि डाक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में सूर्य का बहुत ही मन मोह लेने वाला चित्र प्रस्तुत किया है । कवि ने सूरज को महाराजा की उपाधि दी है ।

. कवि ने इस कविता के पहले पद में स्वर्णिम किरणों को सूर्य का रथ और कलियों तथा फूलों के खिलने को उसका पथ सजाना बताया है । बादलों ने सोने की पोशाक धारण की है और सूर्य के सेवक बनकर चल रहे हैं अर्थात् कवि कहते हैं कि सुबह की स्वर्णिम किरणें जब बादल पर पड़ती हैं तो उनका रंग सोने जैसा हो जाता है ।

. दूसरे पद में कवि कहते हैं कि सूरज के आने से खुश होकर पंछी, चारण सब उसका यश गान कर रहे हैं क्योंकि सूर्य ने रात के अंधेरे पर विजय प्राप्त की है तथा उसके डर से आसमान रूपी मैदान में तारों की फौज भाग गयी है अर्थात् सुबह तारे दिखाई नहीं देते ।

. तीसरे पद में कवि सुबह का सुंदर रूप देख कर उछलना कूदना चाहते हैं परंतु चंद्रमा की दयनीय अवस्था को देख कर रुक जाते

हैं क्योंकि रात को आसमान पर राज करने वाला चंद्रमा सुबह सूर्य से हार कर रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है ।

.अतः कवि कहते हैं कि बदलाव संसार का नियम है हमारे जीवन में सुख-दुख आते रहते हैं हमें उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकारना पड़ता है जैसे रात का राजा दिन के राजा सूर्य के आने से अपना प्रभाव खो देता है ।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिये :-

- a) नव -
- b) कुसुम -
- c) अनुचर -
- d) विहग -
- e) बंदी -
- f) कीर्ति -

g) तारक –

Q2. पर्यायवाची शब्द लिखिये :-

- a) रवि –
- b) कुसुम –
- c) बादल –
- d) रात –
- e) राजा –
- f) पथ –
- g) पोशाक –

Q3. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइये :-

- a) सवारी –
- b) रथ –
- c) फौज -
- d) भिखारी –
- e) मैदान -

Q4. एक शब्द में उत्तर दें :-

- a) आ रही रवि की सवारी कविता के कवि का नाम लिखिये ।
- b) आ रही रवि की सवारी कविता में किसका रथ सजा है?
- c) विहग, बंदी और चारण कौन-सा गीत गा रहे हैं?
- d) कौन राह में क्या बनकर खड़ा है?

e) किसकी फौज मैदान छोड़ कर भाग रही है?

Q5. 'आ रही रवि की सवारी' कविता याद करके लिखिये ।

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

PAGE NO. 10- Q1. लिखित :- लघु उत्तरीय प्रश्न

PAGE NO. -12 – व्याकरण से Q1. पर्यायवाची शब्द

PAGE NO. -12 – Q3. मुहावरों के अर्थ पढ़कर वाक्य बनाइये ।

